

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3;—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 1972/चैत्र 23, 1894

No. 200]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 1972/CHAITRA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th April 1972

S.O. 286(E)/15/IDRA/72(1-A).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 78(E)/15/IDRA/72(1) dated 31st January, 1972, namely:—

In the fourth paragraph of the said Order, for the words "six weeks", the words "ten weeks" shall be substituted.

[No. 25(5)/72-PEC.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1972

क्र० आ० 236(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/72(1-ए)—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश

संख्या का० आ० 78 (ई)/15/आई० डी० आर० ए०/72(1) तारीख 31 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के चौथे पैरा में '6 सप्ताह' शब्दों के स्थान पर '10 सप्ताह' शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 25(5)/72-पी० ई० सी०]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

ERRATA

In the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), Order No. F. 9(39)/Lic. Pol./71, dated 7th January, 1972, published as S.O. 24(E)/15/IDRA/71 in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—sub-section (ii), dated the 7th January 1972, Issue No. 16, the following corrections may be made:—

In line 26 of the Order for "5. Shri B. D. Gupta, Inspecting Officer, Office of the Regional Director, com—" read "6. Shri M. Madurainayagam, Senior Enforcement Officer, Regional Office of".